

:आकृतत (अभीरूप) का कार्यासक, केन्द्रीय गयन उने जेना कर और उत्पाद शृहके ой стои воручивающих _сатика изучику почтобы & LXCI9E.

> टर्किमेंट जान, जी एक ही अवस्थ ! 3° ('War, GVI Bharen, वैना क्लेकी विज्ञा और. 🕟 Hace Dan 👓 Ring Reset.



सहाकोद्ध • Redaid − Mil (181 Tale for No. 1641 - 2177953,5441142 <u>Помій саваруванся рудіную а</u>дація

र्याक्रेक्टर्ग हाता ए. हो. तदाहा 🗵

१पोर - जाडुय सन्दा 💯 Appeal / Pin Sec.

VG/YTZKVKCKUT.

मृत आधार ५ %

10 LU1 - NO.

Re w. 1

Date

37) Domand/2016-17

26 01 8007

भागित आहर अध्याग्रहाति del la Assaul Naja

BMV-EX<u>CUS-UMFAPP-016-2018-19</u>

STANCE Called A Dars of Birder

10.04.2018

ार्थ करने की उत्पाद र Date of seven

53.04.2019

Passad by Shri P. A. Vannes, Commissioner, CG9T & Control Excise, Katchitians highernic

विभिन्न का किया को स्थापन के अन्य किया है। दिनाकों कि एक अपने के साथ पढ़े जोड़े (Clear प्रदेश हैं) १८९२व हर हो. दिलील १९७६ रुप्य, के अधुभागा के थीं में ए. महावे एक पुस्त, केई राज्याहु एक शका रूप एक वैक्टीप उत्पात १२७८ के 3 (tiltle a) की किया आधीर्मक्रम २०६६ की आधार, २०% कराड कूला अभिनेतियम १९९७ का 110 का के प्रकेशका रही की सद्दे अगोर थे, प्रकाश के अधिक प्रकाश का स्वतंत्रक स ारील प्राधितको है के 🕜 (निकुल किया १८८५)

ht phenomena in Bosen a Acceleration, his 20/2017 C Example consist of 10.017 $_{
m CCC}$ with Board's Code. No. 05/20, The Division This Heart operated as Appellate An large the Cost of Control Code. Solve (Sandhill and This Heart operated as Appellate An large the have specified present protein in respect of aggrees and rander Security 35 of County Residual ΔP . Doct and Stocker Salat Fre $(\underline{g}_{Dance},\underline{A},z,[ar{0}])$, .

সাম প্রাকৃত্য উন্তর প্রাকৃত্য ১৮ এর ৪ সাম্বাদ সম্বাদ্ধর, উন্তরি ১৮৮ এ প্রকার রালারে আননার ও লাভারে সামান্ত্রিক সামান্ত্র স্থানি ১৯১৮ বিশ্ব কর্মা ক্ষুত্রিক বিশ্ব কর্মার স্থানিক স্থানিক স্থানিক স্থানিক স্থানিক স Science of the Court Action of The Report Fig. 8 (January Report Report Process of Country of Court (Court of Court of Court

आनोसकार्य के नातिकार पढ़ हास 🐎 । ता ∤Venue to Accordence of the Appellatous & Resistante of the

M/s Megan Pharmaconflicule Pvt. Ltd., Unit - II, Plat No. 1310, 11 & 13,-Snewndranagae 303 035

देश के कि देश किया की अपनित कार्य कार्यन कोरूनोती ऐसे नहीं के हैं के उन्हें के लिए हैं के अधिकारण के सुस्कृत

अधिक दावन वस् एकत्। हैं। Guy potenci significant by Edv Oxfor in Abasol med lik an appear to the anapoptane outdoried to the collowing cont.

रीम् ४०वा केरतेय क्रमण स्टब्स ए। रेजकः क्षेत्रीय ज्याराधिकाम के विदे गरीम् केरतेय क्रमण सम्बद्ध **:1 ाम रहता र जाद हुए के प्राप्त क्षांका पर र स्वान्त्र क्षांका प्रत्यात प्राप्त का कहा कर कहा कर का स्वान हुए कर प्राप्त प्राप्त अधिकेतीय , स्थाय की शास उत्तर के अपनीत हुए "दिन्न आंगिनेताम, 1924 की बाल 86 के पहाड़ा विभावितिक बाबह की द्वार करों है हैं Appending Strong Strong Strong Two Appendix of the methodes Section State of 2,70, 3,000 ह Under Strong SS of the Courter, 1994 on appendix etc.

िनीकरण प्रत्यकेतन सारक विशेष्ट मही। सामर्थ कोना कारण, यहाँ विश्व प्रत्याहत सुन्तर (स. श्रेष्ट्य) असीरी व रहार विभागने के विश्व कियु देखा व्हिल – 2 आक्षा के प्रत्याहरू कि दिन्हीं को की प्राप्त साहित ? The standard among of the recent, decreased Service Tag & scalling Tributable (What Block No. 2, to K. Pureno, New Yelld (CCII Locked) allating to examplifications and extend of liı

कर्मका परिवार (ह्ना स कार्य गए अमेरिका अभाग तीन प्रधी अभीन सीन्त हुन्छ प्रदेश उत्पाद पुरुष एवं से कर अमेरिका में प्रधीकरण (मिरिका) की प्रधिक्ष भीषात अभिन्न । प्रदिक्षिण तान, बहुमानि भवने सम्मदी अहम्मदाय द्वरण्यात क्षेत्र की सामे सिहिता है lm

To the West responsible (0,0) but (0,0), (0,0), we show that it is a constitution of the expression of the state of the expression of the expression



त्रवीति पार पा धिवरण का सन्तर अधिक उन्तर करना करना के दिए कारतिम सुवार एउक (अधिव) विकाय और १९३६, के विकार के उत्पाद विकार किए अभे कि । एक उन्तर कि उन्हें के कि । एक उन्तर कि अधिक किए अभे कि । एक उन्तर कि अधिक के । विकार कि अधिक कि अधिक कि । विकार के अधिक कि अधिक कि । विकार के । विकार

The bound of the Appendix Training that the high of applications in John PA is A as a monthly under the Appendix Linear States of the second particles of the Appendix Linear States of the Appendix Linear L हेंश्या (अपनि १९६) ऑफ्रिक्स के लिए जाने जा पत्र के लेगर 2000 लगर कर निर्मारित रहक उन्हां करना लगने होंगे कि

The impeal audion school on (f) of School 36 of the Province of Additional Control of School of the service of the prescribed cycles. Light 901 to the School of the order of the School of

दिला १५,6किन्स, २०७१ में यस २० मा हा भागभी २४ एक (१५) के आसीत की से सर्व भनेत सेक्टर, भिक्यकारी जो हेर्द्र कर है है। अपने 1976 के कहा निर्माह अपने 2005 है है के सहसे एने हैं के सान भागुरू के दकित उत्तर प्रश्न जया । शागुरू (विकिस), जान्यों के क्याद सुरूष दूनशा विकेश करिय कि अस्थित संस्थान को (क्रमार से एक) आहे : भागित विकित्त कि अधिक अध्याद स्वयंत्र समयक भागुरू अथवा समयक्ता केन्द्राय दुस्तार शुक्रार स्वयंत्र को अधिक सामादिकाय को भागुरू दुस्त करने का मिर्देश है । यह आहे की प्रांत के साथ में क्या कर में है है।

The appeal arober and succion [2] and [25] of the section 86 the Finance Act 1984, not the first of EV ST Vius consulted under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service for trajes, from and shall be about our of he shall be about of Commissional Control Eurise to Commissional control exists (Appends) per all of the shall be a political copy of the code, pasted by the Commissional et al. Income the Association (Commissional Explain Commissional Commissional Commissional Rule (Commissional Commissional C

्रीभा १५५०, प्रावरीय दक्षमा, १५२५ एवं नेवाक्य अपीनेच्य प्रमानेवसम् (संस्था) के लीवे अभिन्ने के बाधक है कि कीश ह्मालाह सुन्या (फेब्रिकेस १४१) की दाल उपलब्ध का प्रहानमं, दो भी दिलागा अभि । , 964 की पार 83 का ोहर्न है भेदनके तहे भी आप कि तह है, कर उन्हेंस के और नपाठीय व भिन्द्य में जो के करने उन्हेंय उन्हार सुरक्षिण कर गोप के जो दिन्द्रन (१९९८), जन जय रह कुर्णन् मेंद्र देश है, आ युर्ज़न्द्र कर गेयल (हिंग) विवादित है, का भूवतान विकास कार, वाली किंदिश भार के अंतर्गत तथा कि वाले वाली उपवेद केंद्र साथ पर वनोड क्या में शाकेक व हा।

के होता अभाद कुल एक है तक्ष्य के मोल्या का निकास प्रश्निक है। विभाग आणिह है

मात्र 🐪 है के नेत्रकेट छन Įii.

ΙBΊ

रोकोर काल का वे अहे शहरा पार्क Hiit

मा देत अपन (भारतस्त्रा के भाग ६ के भाग है। ६४ ००

ा पर्व कर कि इस साथ के प्रकार के किसीय (संस्था) क्रिकीय 20M के अंदर के हुई किस अपनीय पार्वकार्य के अभव किंग स्वांचा स्थानी आगे का अनीत के लागू बारी एकी है।

became appeal in the medith contributed CLOTAT, under Scatter Control Biol Value Sites, we get 1944 which is absorbed applicable to Curatual Northern Scatter Sites In. A processing PASS, and open, against this other shall be been. The important or perform of 1956 of 1977 and opensions of the order shall be been the important or perform of 1956 of 1977 and objects provide the amounts of previous provides the amounts of previous specific provides the amounts of previous specific provides the amounts of previous to 1977 of 1977 and 1977 of 1977 of

Charles (No.2) Professional Sermice Low, Cuty Commodited Service in Commodition of the Co

- (अ. Citer interacted quickers and series of series of series of series of the series of quickers of the series of series of the series of the
- ्र विकेशन के किसी ब्राइका के मानन ने, तहा ब्राइसन किसी मान को किसी क्ष्मान में से सहार तह के पार 1413 के दीराय के विकेश के पान 1836 में किस किया जिल्ला के ब्राइस कहा है दूर्व के आप पह पारव्यान के दौरात. या किसी शिवर को ने का शिवरण ने किस के उत्पाद एक के दौरान, किसी कारकार्य के किसी पेट काइ की शिवर के न्यूनमान के मामति हैंय

In case of any lock of pacie, where the lock operation transportation a burnty to a companies of to modify the transport of bindersing of the special control of the special or in a small control of the special control of the spec

- (ii) श्रीप्त के बाहर किया गर्दा का दान की निर्माल कर रहे नाम के विनिर्माण में अनुस्त करनी नाल पर भएँ पहें श्रीप्तीय प्रभाव कुटर के पूर्व (दिश्रा) के जासने से, जो साहा के बाहर निर्मी सन्तु दो इस पर विजेश की रादी है। है। 2000 में 1986 के 20 dec, को 800 के 100 separate bear years in a 20 कि 20 multiple and internal and on containing the property of the greens which are expressed to any numbers of contains consideration.
- itiil । बाँदे उत्तर व १७०० कर १७४८ किया किया जिस्सा है। बाह्य, बेमाड जा ब्रह्मण की ब्राप्ट शिकी, विस्ता पर है। ह La case Crigocia expected mutaide imitativapen de Meral mutain en, ontre a 1 hacheno es anty.
- Park मुर्गिर्देवत उत्पाद का जनका शुक्क के शृश्यन के हिंद जा पूरी केवेद का अभिनेता एवं उनके विशेषन मध्यक्षी है. पहल तक वी जहें है जोग कि उन्हेंग को आवृत्य (अभिनेता के प्राया विश्व स्विधिक्ष कि एक 1992 के भार 1992 के दूसरा नियम की तहीं प्रतिक किया है। 1992 के भार 1992 के दूसरा नियम की तहीं प्रतिक किया है। 1992 के दूसरा किया की अपनेता है। 1992 के दूसरा किया की अपनेता किया है। 1992 के प्रतिक की अपनेता के प्रतिक की किया कि 1992 कि 1992 के प्रतिक की किया कि 1992 के प्रतिक की किया कि 1992 के 1992 के 1992 के 1992 कि 1992 के 19
- 91 अपनेता आहेता की हो गतिया परण सत्या UA 8 में, पापने केन्द्रिक उत्तरक पुनक (स्ति त) निर्मानकी 200 के लिया प्रिकेट में रिप्ती कि लिया प्रिकेट के हिए आहे. उत्तर के लिया प्रिकेट के रिप्ती कि लिया प्रिकेट के लिया के लिया प्रिकेट के लिया के लिया प्रिकेट के लिया के
- 19) ਜਗਰੇਜ਼ਾਰ ਬਾਬੇਜ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਾਡ ਜ਼ਿਲਮੁਕੀਬਿੰਦ ਵਿੱਚੀਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਨੇ ਜ਼ਾ. ਅਤੇ ਕੀ ਗਈ ਗਈਏ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਸ਼ਾਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
- ि । बीट इसे अधिर में कई मूल तावता का सामित्र हैं तो अनीका है। लाईर के बिए एकर का समाति का कि ए तम है किया जाता जिल्हें, हुए एक्य के होने हुए शी के लिख पढ़ें को ने काने में हैं। अपी लिए आदिता पश्चित्रका और एक आदिया का देहीं मानवारी को एक आईरजा दिया ताता है। है 15 ,000 में तिहार पहिल्ले एक्टर कार्यकार का common of empty of company, but for each HTCO should be confidenced a objected augment not with wordfling the field that has each may be used to be deputional with the contre any local taken in class. The calculation each may be used to be model with both which the calculation and the contract of the calculation of the contract of the model with the calculation of the
- El আয়াহিটিৰ ভব্নাত্ৰৰ স্থাকৰ প্ৰথিমিক । 1975, জালাভানুত্ৰ বিকি প্ৰস্থাত পুচাৰাটো দেই কৰিবলৈ প্ৰথি কৰিবলৈ জাইটা কৰিবলৈ কৰিবলৈ
- (F) मीना शुन्ता, किहोब द्वापा, शुन्ता एवं क्याजर आफ्तिब बवादाविकाम रहावै दिया विकासको पार्थण से अपितः एवं उत्तर अभिक्षा पार्था को अभिक्षा जानी विभाग के तथि है कि तथि है। आक्रिक किए जान है है दें। or ion is also invested in the Julia Love, is those and off or related protects contained in the Constant, Constant Contain Applicate Tributor's House and Rules, 1982
- 98) অনু এখীনী বা ন^{াৰ}নেটা এই এপাটো লোটোৰ সৈটো ঐ এনীটো ইয়াগুলে মিন্তাল প্ৰিয় নামনালয় সাক্ষালা দি ^{প্ৰি}য়, প্ৰতিয়ালী নিন্তালীয় ইয়নোলো জনত (প্ৰশাস্ত্ৰ) আৰু ইয়া প্ৰতিয়ালী কিছিল। had the experience administration and table the service of the policies of the policies of the higher creation authority, the coordinate controlled to the terromagnetic work according to

; <u>LORDER-IN-APPEAL: :</u>

- Existly stated of the facts of the cost are that the appellant is engaged to the manufacturing of 1884 Medicines and Trolding Service. Two Registration No. AABCM4177GST000: During the course of Audit on 18718-11.2015, it was observed that the appellant has paid Rei28.80-0001 as Professional Press and Commission to the proctors II.UH. However, it was indeed that the appellant has not part service tax to Rei4.80-3044 or the athorities bath as Commission to the Dicebors HUT under Reperse Charge Medicines in during the period, December 2012 to Cotonic 2010. The appoint neighbors are upon the observation raised by the Audit as per EAR No. 2082019-14 detector 12.2016 and Service tax payment of Rs.4-30,8047 along with interest of Rs.4-92,0157 was paid only CIR No.02202822711201300017-8. No. 52002322711101500020 acquired AII.10018 respectively.
- Department issued Show Carso Notice No WAdj-1898/1AXADW2000 10 dated 39.02.2008 to the appellant asking their set 50 why. (1) Service too smoothing to Rs 4,80,804/- payable and emaky paid by them should not be appropriate against their toority under provisions of Sexion 73(1) of the Finance Att., 1994 road with Section 68 of the Finance Att., 1994 (ii) interest at the epplicable rate Hs 93,0004- payable and cursady poid by them should not be appropriated against their labelty under provisions of Sexion 75 of the Finance Act, 1994 (ii) behalfy under section 77(7) of the Act mad with Rules 7 of the Rules of they failed in assess their commot toy tradity and filed indexed another toy returns for the period under reference and (iv) penalty should not be indexed upon their contact under reference and (iv) penalty should not be indexed as in time action 73 of the Finance Act. 1694 for non-payment, of their decidence payment of Service tax. The adjustment authority while out function to demand

and interest penalty as mentioned at Para 1 shape lobserved that the appellor had not express that collar to pay up the penalty under Section 7.9 (4) (a) so as to conclude processings in the matter as no followable of such payment in this regard had been provided as without to the department. To also observed that with the introduction of Reverse Charge Mechanism with Notification No.30/2012-87 dated 20.08.2012 (w.e.f. 01.07.2012), the service receiver i.e. the approblem was required to pay the Service tax on 1989's of the amount of taxable serviced provided, under the provisions of Section 69 of the Pisance Act. 1694 read with Ride 4 rid the Service Tex Rules, 1894.

- 4 The personal Learing in the moder was larke on 31.01.2053, Sam Metru pear. (Charted Accountant) and Shift Nilesh Charthon, Cerural Excise, in charge, andhorized representatives approximation behalf of the appellar band re-levated the grounds of appeal. Proy substituted that Service law along with interest has already been paid by them peter to issuance of SCIN, penalty carried to hipposed as provided under Section 73(3) of Hipposed Act, 1994 and equested to decide the case at an carried and or metro.
- 9. If find that in case of instant apheal, the imptyped order was received by the appeal and an 97.02.2017 and date of filling of appeal is 44 (A 2017, Herber, the appeal has been flot within the shipulated time period and there is no delay in filling the appeal. The condition of gre-deposit also stand fulfilled.
- (i) If indifficial the demand of Service has is atroady part by the appellant. The puly issue to decide in the distant expect is whether penalty incorrect is correct or otherwise.
- The Section 75(3) of the Finance Act, 1994 provides that when any service text has not been two or or pakt of the been short levice or short paid or emonously refunded, the person chargeable with the service tax, or his power to when when when the network has enteredually feet made, may pay the pirounit of such service tax, chargeable or emoneusly refunded, on the basis of bla own exceptationer' thereof, or on the basis of tax ascertained by a Gentral Excise Officer before service of notice on him under subsection (1) in respect of such service tax, and inform the [Central Excise Officer] is such payment to withing, who, on receipt of such information shall not service any notice under sub-section (1) in respect of the amount so paid. Furtier Explanation 2 of the said Section also darily that no penalty under stry of the provisions of this Act or the rules made therefore the rules indeed the receipt shall be imposed in respect of payment of service tax or by file following and receipt thereon.



- 3. On going through the thoughed orber, I and that the appellant has deposited the service tax with interest framediately on being portford out by the social, a find that contentions regarding welver of denally made by the appellant has continuous regarding welver of denally made by the appellant has continuous. A preparate to your positions are published but they have positional total as amount along on minterest immortatory on oding pointed but by Audit and total as purposed stillow cause holice, if electric as por Soction (3(3) of the Ginance Aut 1894 drey describe incharge in this saudit for a total essential along reflected the decision of APPOLLO COMPRITIES Houghout this in this popular, or o, EXI, MADURA condited at 2011 (2.1) & T.R. AS (11). Chemistry where seeing each of Section 80 of Service Tax Act, the imposition of populating under seeing resent case no people is required to be imposed under section (7(2) and 78 or the Act.
- 5. If further find that GBHC has issued guidelines from time to time the typic tile of culars that when the assessee makes payment of service that along with interest, the proceedings about the troatest as consulted. Execute teller if No.137/167/2006 CX.4 dated 0.0.10 2007 which clarified canciusion of proceedings in terms of sub-section (3) of Section 73 of the Act; that the SCN is not war anted what the service factives part sub-protted by the appellant fathers, frind that as contended by the appellant reconsider of times ties also get faithfield from the fact that they would be eligible for the waive tot show causa notice in topics of section 78(3) of the Finance Act, 1894, kinds they have a ready paid service lex along with interest before fast according show cause notice in the matter.
- (ii). In view of the foregoing, I set uside the impagned order passed by the adjuitesting a ithouty and allow the appeal filed by the appealant in above terms.
 - 11. The angest files by the appellant slands disposed of is above terms.

(P. Á. Vaeave) Commissioner (Apposts) /

Commissioner CGST & Central Habso, (Candhidhain)

Hate: 10.04.2015

F. No. V 2/77/9VR/2014



Dy Regd. Post A.B. / Spend Post

To, M/s: Mapos Postmassidesis Pvi, 1 (d. (1/4)[-4]) Piot No. 1010, 5 FB 12, Guerndrangger – 363935

Copy to a

- 1. The Chief Commissioner, CGST & ClEx., Afraredabad Zone, Afraredabad
- 2. The Commissioner, GGSTA SI FY , Bhavpegar
- 5. The Additional Commissioner, COST & C.E.s.(System), Bhawnagar
- ார். Assistant Commissioner, 19085 & Gentral Exciso Division Sure ideanagar. ஆட்டுuard file.